

M2110 Series M2120 Series

EPSON

EXCEED YOUR VISION

EN Start Here
TC 安裝說明

HI यहाँ आरंभ करें
MN Энд эхэл




© 2019 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXXX

Read This First
The ink for this printer must be handled carefully. Ink may splatter when the ink tank is filled or refilled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

請先閱讀本說明
墨水必須小心處理。此印表機的墨水，在大容量墨水槽中裝填或填充墨水時，墨水可能會濺出。如果墨水碰到您的衣物或物品，可能會無法清除乾淨。

पढ़ने इसे पढ़ें
इस प्रिंटर के लिए इंक को सावधानीपूर्वक भरा जाना चाहिए। इंक के टैंक भरते जाने या इंक रीफिल किए जाने के दौरान इंक फैल सकता है। यदि इंक आपके कपड़ों या सामान पर लग जाती है, तो यह शायद निकलेगी नहीं।

Үүнийг эхлээд уншина уу
Энэ принтерийн бэхтэй болгоомжтой харьцах ёстой. Бэхний сав дүүрэх, эсвэл дахин дүүргэх үед бэх асгарна уюултай. Хэрвээ бэх таны хувцас юмуу эд зүйлс дээр асгарвал, арилахгүй байж магадгүй.



Additional items may be included depending on the location.
視乎不同位置，可能包含額外項目。
स्थान के आधार पर अतिरिक्त आइटम शामिल किए जा सकते हैं।
Байршлаас шалтгаалан, нэмэлт зүйлс агуулагдсан байж болно.


The initial ink bottle will be partly used to charge the print head. This bottle may print fewer pages compared to subsequent ink bottles.
原始墨水瓶會有一部分墨水被用於填充印字頭。此墨水瓶可能比後來的墨水瓶列印頁數更少。

आरंभिक इंक बोतल का उपयोग प्रिंट हेड को चार्ज करने के लिए किया जाएगा। हो सकता है कि यह बोतल बाद की इंक बोतलों की तुलना में कम पेज प्रिंट करे।

Хэвлэх толгойг цэнэглэхэд, эхний бэхний бортогыг хэсэгчлэн ашиглана. Энэхүү бэхний бортог нь дараагийн бэхний бортоготой харьцуулахад цөөн хуудас хэвлэж болно.

Do not connect a USB cable unless instructed to do so.
除非依指示操作，否則請勿連接 USB 線纜。

जब तक ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए, तब तक किसी USB केबल को कनेक्ट न करें।
Зааварчилгаа өгөөгүй л бол USB утсыг холбож болохгүй.





See this guide or Epson video guides for printer setup instructions. For information on using the printer, see the User's Guide on our web site. Select "Support" to access the manual.
請參閱本指南或 Epson 視訊指南以瞭解印表機設定說明。有關使用印表機的更多資訊，請參閱我們網站上的進階使用說明。選擇「支援」以存取手冊。
प्रिंटर के सेटअप निर्देशों के लिए यह मार्गदर्शिका या Epson वीडियो मार्गदर्शिका देखें। प्रिंटर के उपयोग के बारे में जानकारी के लिए, हमारी वेबसाइट पर उपयोगकर्ता गाइड देखें। मैन्युअल का एक्सेस करने के लिए "सहायता" चुनें।


Принтерийг тохируулах зааврыг энэхүү гарын авлага эсвэл Epson видео гарын авлагаас үзнэ уу. Энэ принтерийг ашиглах талаарх мэдээллийг авах бол манай вебсайт дээрх **Хэрэглэгчийн Заавар**-г харна уу. Гар аргад нэвтрэх бол "Дэмжлэг"-ийг сонгоно уу.




Setting Up the Printer




Hold down the button until it flashes.
按住按鈕直到其閃爍。
बटन को तब तक दबाए रखें जब तक वह फ्लैश न हो जाए।
Товчийг анивчих хүртэл дарна.






Select a language.
選擇語言。
भाषा का चयन करें।
Хэл сонгоно.



When a message is displayed asking you to check the Start Here, go to the next step.
當顯示要求您查看安裝說明的訊息時，前往下一步。
जब आपको एक संदेश दिखे जिसमें यहाँ आरंभ करें देखने के लिए पृष्ठ जा रहा हो, तो अगले चरण पर जाएं।
Энд эхэл шалгахыг таниас хүсэн зурвас гарч ирвэл дараагийн алхам руу шилжинэ.



Open the scanner unit.
開啟掃描器裝置。
स्कैनर यूनिट खोलें।
Сканнерыг нээх.




- Remove the cap while keeping the ink bottle upright; otherwise ink may leak.
- Use the ink bottle that came with your product.
- Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson's warranties.

- 墨水瓶保持直立時，拆下瓶蓋，否則墨水可能外洩。
- 使用產品隨附的墨水瓶。
- Epson 不保證非原廠墨水的品質或可靠性。使用非原廠墨水而導致損壞，Epson 將不提供免費的保固服務。


- इंक की बोतल की कैप निकालते समय उसे सीधा रखें, अन्यथा इंक लीक हो सकती है।
- अपने उत्पाद के साथ आने वाली इंक की बोतल का उपयोग करें।
- Epson गैर-वास्तविक इंक की गुणवत्ता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दे सकता। गैर-वास्तविक इंक का उपयोग करने से क्षति हो सकती है जो Epson की वारंटी में शामिल नहीं है।

- Бэхний бортогыг босоо байлгаж тагийг авна; эс тэгвээс, бэх асгарч болно.
- Бүтээгдэхүүнтэй хамт ирсэн бэхний бортогыг хэрэглээрэй.
- Epson жинхэнэ бус хорны чанар ба найдвартай ажиллагаанд баталгаа гаргахгүй. Жинхэнэ бус бэхийг хэрэглэх нь Epson-ы баталгаанд үл хамрагдах гэмтэл үүрүүлж болзошгүй.

Check the upper line in the ink tank.
檢查墨水匣的最高標線。
इंक टैंक की ऊपरी लाइन देखें।
Бэхний сав дахь дээд шугамыг шалгана уу.



Inert the ink bottle straight into the port to fill ink to the upper line.
將墨水瓶徑直插入端口以填充墨水至最高標線。
ऊपरी लाइन तक इंक भरने के लिए इंक की बोतल को सीधे पोर्ट में डालें।
Бэхийг дээд шугам хүртэл дүүргэхийн тулд бэхний бортогыг порт руу шулуун оруулна уу.






- Ink starts pouring and the flow stops automatically when the ink reaches the upper line.**
- If the ink does not start flowing into the tank, remove the ink bottle and reinsert it. However, do not reinsert the ink bottle when the ink has reached the top line; otherwise ink may leak.
- Ink may remain in the bottle. The remaining ink can be used later.
- Do not leave the ink bottle inserted; otherwise the bottle may be damaged or ink may leak.
- Do not allow the top of the ink bottle to hit against any objects after removing its cap; otherwise ink may spill.
- Do not knock the ink bottle, otherwise the ink may leak.

- 墨水開始流入，並在墨水存量達到最高標線時自動停止流入。
- 如果墨水未開始流入大容量墨水槽，請取出墨水瓶並重新插入墨水瓶。然而，請勿在墨水存量達到最高標線時重新插入墨水瓶，否則墨水會瀉出。
- 墨水可留在墨水瓶中。剩餘的墨水可在以後使用。
- 請勿讓墨水瓶維持插入狀態；否則墨水瓶可能會受損或墨水可能會瀉出。
- 取下瓶蓋後，請勿讓墨水瓶頂部碰到任何物體；否則，墨水可能滴出。
- 請勿敲擊墨水瓶，否則可能導致墨水瀉出。


- इंक निरना शुरू हो जाता है और इंक का स्तर ऊपरी लाइन तक पहुंचने पर इंक का प्रवाह अपने आप बंद हो जाता है।
- यदि इंक टैंक में जाना शुरू नहीं होती है, तो इंक की बोतल को निकालें और इसे फिर से डालें। हालांकि, जब इंक का स्तर ऊपरी लाइन पर पहुंच जाए, तो इंक की बोतल को फिर से न डालें; अन्यथा इंक लीक हो सकती है।
- यदि इंक टैंक में इंक रह सकती है। बची हुई इंक का उपयोग बाद में किया जा सकता है।
- इंक की बोतल को डाल कर छोड़ें नहीं; अन्यथा बोतल क्षतिग्रस्त हो सकती है या इंक टपक सकती है।
- इंक की बोतल के कैप को निकालने के बाद इसके ऊपरी हिस्से पर किसी चीज को टकराने न दें; अन्यथा इंक फैल सकती है।
- इंक की बोतल को ठोके नहीं, अन्यथा इंक लीक हो सकती है।

- Бэхний түвшин дээд зурсаанд хүрэхэд эх гоожиж, бэхний урсгал автоматаар болзоно.
- Хэрэв бэх сав руу урсаж эхлэхгүй байвал, бэхний савыг салгаад буцааж хийнэ уу. Гэхдээ бэх дээд зурсаанд хүрсэн байхад бэхний савыг буцааж хийж болохгүй, эс тэгвэл бэх асгарч болзошгүй.
- Бэхийг саванд нь байлгана. Үлдсэн бэхийг дараа нь ашиглаж болно.
- Бэхний савыг оруулаад орхиж болохгүй, эс тэгвэл сав гэмтэж эсвэл бэх гоожиж болно.
- Бэхний савны таглааг авсны дараа дээд хэсгийг нь ямар нэг эд зүйлд цохихгүй байх ёстой, эс тэгвэл бэх асгарч болно.
- Бэхний савыг цохиж болохгүй, эс тэгвэл бэх асгарч болно.



When the ink reaches the upper line of the tank, pull out the bottle.
當墨水存量達到墨水容器的最高標線時，拉出墨水瓶。
जब टैंक की ऊपरी रेखा तक इंक पहुंच जाती है, तो बोतल को बाहर निकालें।
Бэх савны дээд шугамд хүрэхэд бэхний бортогыг гаргана.



Press **OK** for 5 seconds and follow on the on-screen instructions. 按下 **OK** 5 秒，並遵循畫面上的說明操作。
को 5 सेकंड तक दबाएँ और स्क्रीन पर दिखने वाले निर्देशों का पालन करें।
ठी-र 5 секунд дараад дэлгэц дээрх зааварчилгааг дагана уу.





Press **Start** to start initialization. This takes about 10 minutes. 按下 **Start** 以開始初始化。該任務需要約 10 分鐘。
आरंभिकरण प्रारंभ करने के लिए **Start** दबाएँ। इसमें लगभग 10 मिनट आगे सकते हैं।
Бэлтгэлийг эхлүүлэх бол **Start**-г дарна уу. Энэ нь 10 минут орчим болно.



When charging ink is complete, the print quality adjustment screen is displayed. Follow the on-screen instructions to perform adjustments. When the paper loading message is displayed, go to the next step. 墨水填充完成時，墨水品質調整畫面隨即顯示。遵循螢幕上的說明執行調整。顯示紙張裝入訊息時，前往下一步。
जब इंक की चार्जिंग पूरी हो जाती है, तो प्रिंट गुणवत्ता समायोजन स्क्रीन दिखने लगती है। समायोजित के लिए स्क्रीन पर दिखने वाले निर्देशों का पालन करें। जब पेपर लोड करने का संदेश दिखने लगे, तो अगले चरण पर जाएं।
Бэхийг цэнэглэж дуусахад хэвлэх чанарын тохируулгын дэлгэц гарч ирнэ. Тохируулгыг гүйцэтгэхийн тулд дэлгэц дээрх зааварчилгааг дагана. Цаас ачаалах зурвас гарч ирвэл дараагийн алхам руу шилжинэ.

Load A4 size paper in the paper cassette with the printable side facing down. 將 A4 大小紙張裝入進紙匣，並使列印面向下。
प्रिंटेबल साइड फेसिंग डाउन वाले पेपर कैसेट में A4 साइज़ के पेपर डालें।
А4 хэмжээтэй цаасыг хэвлэх талыг доош нь харуулж цаасны тэвшинд ачаална.



Connect your computer or smart device to the printer. Visit the website to install software and configure the network. Windows users can also install software and configure the network using the CD supplied. 連接電腦或智慧型裝置至印表機。瀏覽網站以安裝軟體和設定網路。Windows 使用者亦可使用提供的 CD 安裝軟體和設定網路。
अपने कंप्यूटर या स्मार्ट डिवाइस को प्रिंटर से कनेक्ट करें। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने और नेटवर्क कॉन्फिगर करने के लिए वेबसाइट पर जाएं। Windows उपयोगकर्ता दी गई CD का उपयोग करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और नेटवर्क को कॉन्फिगर कर सकते हैं।
Өөрийн компьютер эсвэл ухаалаг төхөөрөмжөө принтерт холбоно уу. Вэбсайт руу орж, програм хангамжийг суулгаад сүлжээг тохируулна уу. Windows-н хэрэглэгчид нийлүүлсэн CD-г ашиглан програм хангамжийг суулгаж, сүлжээг тохируулах боломжтой.

請參閱本說明。請參閱網站以安裝軟體和設定網路。Windows 使用者亦可使用提供的 CD 安裝軟體和設定網路。

अपने कंप्यूटर या स्मार्ट डिवाइस को प्रिंटर से कनेक्ट करें। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने और नेटवर्क कॉन्फिगर करने के लिए वेबसाइट पर जाएं। Windows उपयोगकर्ता दी गई CD का उपयोग करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और नेटवर्क को कॉन्फिगर कर सकते हैं।
Өөрийн компьютер эсвэл ухаалаг төхөөрөмжөө принтерт холбоно уу. Вэбсайт руу орж, програм хангамжийг суулгаад сүлжээг тохируулна уу. Windows-н хэрэглэгчид нийлүүлсэн CD-г ашиглан програм хангамжийг суулгаж, сүлжээг тохируулах боломжтой.



Enter the product name and select "Setup" to install the software and configure the network. 輸入產品名稱，選擇「設定」以安裝軟體和設定網路。
उत्पाद नाम दर्ज करें और "सेटअप" चुनकर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और नेटवर्क को कॉन्फिगर करें।
Бүтээгдэхүүний нэрийг оруулаад "Тохируулга"-ыг сонгож програм хангамжийг суулгаж, сүлжээг тохируулна уу.

The printer is ready to use. 印表機已做好使用準備。
प्रिंटर उपयोग के लिए तैयार है।
Принтер ашиглахад бэлэн боллоо.

This product does not notify you when the ink is low. Be sure to visually check the ink levels in the ink tanks. 本產品在墨水量低時不會通知您。請務必目視檢查墨水匣內的墨水存量。
यह उत्पाद इंक कम होने की जानकारी नहीं देता है। इंक टैंक में इंक के स्तर को देखकर जांचने के लिए सुनिश्चित रहें।
Бэхний хэмжээ бага болоход бүтээгдэхүүн танд мэдэгдэхгүй. Бэхний сав дахь бэхний түвшинг харж шалгаж байгаарай.

Using Smart Devices with Wi-Fi Direct (ET-M2120, M2120 Series only)

Wi-Fi Direct Mode allows you to setup the printer to communicate directly with your smart devices without requiring a wireless router or access point. See the User's Guide for more details.

Wi-Fi Direct 模式允許您設定印表機與您的智慧型裝置直接通訊，無需無線路由器或存取點。若需更多詳細資訊，請參閱 **進階使用說明**。





Wi-Fi Direct मोड से आप वायरलेस राउटर या एक्सेस प्वाइंट की आवश्यकता के बिना प्रिंटर को सीधे अपने स्मार्ट डिवाइस से चला सकते हैं। अधिक विवरण के लिए **उपयोगकर्ता गाइड** देखें।

Wi-Fi шууд горимын тусламжтайгаар та принтерийг утасгүй хүлээн авагч эсвэл хандах цэггүйгээр шууд ухаалаг төхөөрөмжтэйгөө холбохоор тохируулах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг **Хэрэглэгчийн Заавар**-аас үзнэ уу.


Enter the product name and select "Setup" to configure Wi-Fi direct. 輸入產品名稱，選擇「設定」以安裝軟體和設定 Wi-Fi Direct。
उत्पाद नाम दर्ज करें और Wi-Fi Direct को कॉन्फिगर करने के लिए "सेटअप" चुनें।
Бүтээгдэхүүний нэрийг оруулаад "Тохируулга"-ыг сонгож Wi-FiDirect-ийг тохируулна уу.




Copying



5 Make other settings as necessary, and then Press \blacklozenge .
進行其他必要設定，然後按下 \blacklozenge 。



You can check the various copy settings in the User's Guide.
您可以在進階使用說明中查看各種複印設定。



Ink Bottle Codes

005*/0055*


*1 High capacity / ** Standard capacity
**1 高性能 / ** 標準性能

Use of genuine Epson ink other than the specified ink could cause damage that is not covered by Epson's warranties.


Guide to Control Panel

Table with 2 columns: Icon and Description. Contains instructions for power, home screen, troubleshooting, navigation, stopping operations, and returning to previous screens.

A code is displayed on the LCD screen if there is an error or information that requires your attention. See the User's Guide for more details.




Checking Ink Level and Refilling Ink



To confirm the actual ink remaining, visually check the ink level of the product's tank. Continued use of the printer when the ink level is below the lower line on the tank could damage the product.


2 Select Maintenance > Fill ink.
選擇 維護 > 填充墨水。



3 Follow the instructions on the screen to refill the ink.
依據畫面上的說明填充墨水。



Print Quality Help

If you see missing segments or broken lines in your printouts, or if blank sheets are printed, print a nozzle check pattern to check if the print head nozzles are clogged.





Clearing Paper Jam





Front / 前方 / आगे / Урд тал



Back / 後方 / पीछे / Ард тал



Storing and Transporting



Be sure to keep the ink bottle upright when tightening the cap. Place the printer and the bottle in a plastic bag separately and keep the printer level as you store and transport it.

3 Ensure the ink bottle is upright when tightening the cap. Place the printer and the bottle in a plastic bag separately and keep the printer level as you store and transport it.

Important Safety Instructions

- Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment.
Be sure your AC power cord meets the relevant local safety standard.

- 僅適用印表機隨附的電源線。使用其他電源線可能導致火災或電擊。請勿使用任一其他設備的電源線。
請確保所使用的 AC 電源線符合相關當地安全標準。

- Print the page with the ink bottle upright when tightening the cap. Place the printer and the bottle in a plastic bag separately and keep the printer level as you store and transport it.
If you notice a decline in print quality, run a cleaning cycle or align the print head.

2 To confirm the actual ink remaining, visually check the ink level of the product's tank. Continued use of the printer when the ink level is below the lower line on the tank could damage the product.

Use of genuine Epson ink other than the specified ink could cause damage that is not covered by Epson's warranties.
If you use non-specified ink, the printer may print with poor quality and may damage the printer.

Бэхний бортогыг хүчтэй сэгсэрч эсвэл бэхийг асгарахад хүргэж болзошгүй тул хүчтэй нөлөөлөлд өртүүлж болохгүй.

This guide includes basic information about your product and troubleshooting tips. See the User's Guide (digital manual) for more details.

For outside Europe / 對於歐洲以外 / यूरोप से बाहर के लिए / Европоос өөр газар болон
http://support.epson.net/

Information for Users in Taiwan Only

此資訊僅適用於台灣地區

M2110
M2120

- 產品名稱：多功能印表機
額定電壓：AC 100-240 V
額定頻率：50 至 60 Hz
單機複印時：約 15 W
就緒模式：約 4.3 W
省電模式：約 0.7 W
關機模式：約 0.2 W
額定電流：0.4至0.2 A
製造年份、製造號碼和生產國別：見機體標示

緊急處理方法
發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢Epson授權服務中心：

製造商：SEIKO EPSON CORPORATION
地址：3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
電話：81-266-52-3131

注意事頂
只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。
請保持工作場所的通風良好。



The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.